



दिनांक- 14.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस ने पशु तश्करी में

03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.10.2020 को थाना प्रभारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी टीम के रात्रि गश्त के दौरान तुरामोड़ वहद ग्राम आफतपुर के पास पिकप न0 **UP 91 T 4064** पर 19 राशि पाड़ा एवम 02 राशि पड़िया को अभियुक्त गण द्वारा बडी निर्दयतापूर्वक एवम क्रूरतापूर्वक उक्त पशुओ के पैर व गर्दन मे रस्सी बांधकर परिवहन करते समय पकड़े गये जिस पर अभियुक्त गण 1. अर्जुन पुत्र पप्पू 2. दानिश पुत्र इकबाल 3. पप्पू कुरैशी पुत्र करिया कुरैशी को गिरफ्तार किया गया जिस

सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 195/2020 धारा 3/11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ0नि0 श्री अवधेश कुमार सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
- 2- का0 रिकू सरोज
- 3- का0 शिवम कुमार

अपराध विवरण -

मु.अ.सं. 195/2020 धारा 3/11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण:-

1. अर्जुन पुत्र पप्पू निवासी अलीपुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा
2. दानिश पुत्र इकबाल निवासी कसाईमण्डी कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा
3. पप्पू कुरैशी पुत्र करिया कुरैशी निवासी मैन मार्केट कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

बरामदगी -

19 राशि पाड़ा एवम 02 राशि पड़िया।





दिनांक- 14.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



जनपद के थानों में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत आयोजित की गयी पीस कमेटी की बैठक:-

आज दिनांक 14.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद के थानों में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के विभिन्न समुदायों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ-साथ प्रशासनिक व पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। पीस कमेटी की बैठक में अनुरोध किया गया कि आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल से सम्बंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जायें तथा किसी भी धार्मिक आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए तथा कोई भी स्टाफ व दर्शक बिना फेस कवर/ मास्क के नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में गोष्ठी के दौरान त्यौहारों के मद्देनजर आपसी सौहार्द बनाये रखने के क्रम में समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गयी जिससे उनको समय रहते दूर किया जा सके।

इसके साथ ही उपस्थित सभी लोगों से वैश्विक महामारी **Covid-19** के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत सभी से मास्क लगाने/लगातार हाथ धोने/सैनेटाइज करने की अपील की गयी, जिससे इसके प्रसार को रोंका जा सके।





दिनांक- 14.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस

दिनांक 14.10.2020 पैदल गस्त/वाहन चेकिंग



आज दिनांक 14.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में सीओ कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय मय थाना कुलपहाड़ पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल गस्त करके संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों को चेक किया गया तथा मुख्य बाजार का भ्रमण भी किया गया। इसके साथ ही कोविड-19 के तहत वाहन चेकिंग की गई, जिसमें 62 वाहनों से 7200/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया एवं 25 ई-चालान भी किये गये। कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत लोगो से मास्क पहनने व 02 गज की दूरी बनाये रखने तथा अपने हाथों को बार-बार सेनिटाइजर/साबुन से धोने की अपील की गई। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।



MAHOBA POLICE

दिनांक 14.10.2020

मीडिया रिपोर्ट



महोबा - अरुण कुमार पुलिस अधीक्षक ने अरुण कुमार, अरुण कुमार की हस्ताक्षरों के साथ...

24 घण्टे में मुख्य आरोपी सहित 3 हत्यारोपी गिरफ्तार

महोबा (एनटी) - जिले के अरुण कुमार कानून-अधीनता को दबाने के उद्देश्य से अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा 24 घण्टे में मुख्य आरोपी सहित 3 हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए।

जिले के अरुण कुमार कानून-अधीनता को दबाने के उद्देश्य से अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा 24 घण्टे में मुख्य आरोपी सहित 3 हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए।

जिले के अरुण कुमार कानून-अधीनता को दबाने के उद्देश्य से अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा 24 घण्टे में मुख्य आरोपी सहित 3 हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए।

जतसंदेश टाइम्स

बनारस, बुधवार, 14 अक्टूबर 2020

डीआईजी पहुंचे अकौना गांव किया घटनास्थल का निरीक्षण



डीआईजी का निरीक्षण करने आइजी व पुलिस के अधिकारियों के साथ अकौना गांव में घटनास्थल का निरीक्षण।

महोबा। अरुण कुमार ने डीआईजी को घटना के बारे में बताया। अरुण कुमार ने डीआईजी को घटना के बारे में बताया। अरुण कुमार ने डीआईजी को घटना के बारे में बताया।

स्वतंत्र चेतना

बनारस, बुधवार, 14 अक्टूबर 2020

कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर एक सैकड़ा से वसूला जुर्माना

* अभियान के दौरान 43 वाहनों के लिए गये ई-चालान

* जनपदवासियों को सतर्क रखने के लिए किया जागरूक



चेतना दूर कार्यवाही

महोबा 13 अक्टूबर। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर जिले भर में पुलिस ने सड़कों पर उतरकर कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया।